



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

## “ऑपरेशन पाताल” के तहत 04 TOP-10 अपराधी सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कुल 05 अवैध शस्त्र बरामद

दिनांक 26.05.22

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा “ऑपरेशन पाताल” चलाकर अपराध को अपनी आय का स्रोत बना लेने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए थे।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपदीय पुलिस को “ऑपरेशन पाताल” चलाकर सघन चेकिंग एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देशों के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा सघन अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों से कुल 05 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार 04 अभियुक्त टॉप-10 अपराधी भी है। जिनसे कुल 05 अवैध शस्त्र व 05 कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्तों पर पूर्व में विभिन्न अपराधों में संबंधित लूट/चोरी/नकबजनी/अवैध शस्त्र/गैंगेस्टर आदि धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत हैं। सर्किलवार विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं	सर्किल	विवरण	ऑपरेशन पाताल के अन्तर्गत कार्यवाही	
			पंजीकृत अभियोग	शस्त्र विवरण
1	नगर	02 टॉप-10	02	02
2	सिधौली	02 टॉप-10 01 अन्य अभियुक्त	03	03
<b>योग</b>		<b>05</b>	<b>05</b>	<b>05</b>

1. थाना कोतवाली नगर द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार:-  
थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा टॉप-10 हिस्ट्रीशीटर 0343ए अभियुक्त मो0 नासिर पुत्र रज्जाक निवासी आफिसर कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर को एक अदद अवैध

तमंचा व एक कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0 230/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर का मजारिया हिस्ट्रीशीटर 0343ए व टॉप 10 अपराधी भी हैं, जिनके विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट व अवैध शस्त्र आदि के अंतर्गत पूर्व में कई अभियोग पंजीकृत हैं।

2. थाना रामकोट द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार:- थाना रामकोट पुलिस टीम द्वारा टॉप-10 हिस्ट्रीशीटर 1956ए अभियुक्त मो0 मेराज पुत्र स्व0 मुनीम निवासी मुसहा थाना रामकोट जनपद सीतापुर को एक अदद अवैध तमंचा व एक कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0 247/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामकोट का मजारिया हिस्ट्रीशीटर 1956ए व टॉप 10 अपराधी भी हैं, जिनके विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट/लूट/चोरी नकबजनी आदि के अंतर्गत पूर्व में कई अभियोग पंजीकृत हैं।
3. थाना सिधौली द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना सिधौली पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त बगुली उर्फ दिनेश पुत्र विश्रू निवासी हुसैनगंज थाना सिधौली जनपद सीतापुर को एक अदद अवैध तमंचा व एक कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0 195/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।
4. थाना अटरिया द्वारा 01 अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार:- थाना अटरिया पुलिस टीम द्वारा टॉप-10 हिस्ट्रीशीटर 3100ए अभियुक्त ननकू पुत्र हुल्ली निवासी अलहियापुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर को एक अदद अवैध तमंचा व एक कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0 141/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अटरिया का मजारिया हिस्ट्रीशीटर 3100ए व टॉप 10 अपराधी भी हैं, जिनके विरुद्ध लूट/अवैध शस्त्र व पुलिस मुठभेड़ आदि के अंतर्गत पूर्व में कई अभियोग पंजीकृत हैं।
5. थाना कमलापुर द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार:- थाना कमलापुर पुलिस टीम द्वारा टॉप-10 अभियुक्त संजय पुत्र मोहनलाल निवासी जमयैतपुर थाना खैराबाद जनपद सीतापुर को एक अदद अवैध तमंचा व एक कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0 170/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कमलापुर का टॉप 10 अपराधी भी हैं।



